



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 421]

नई दिल्ली, बुधस्पतिवार, नवम्बर 27, 2008/अग्राहायण 6, 1930

No. 421]

NEW DELHI, THURSDAY, NOVEMBER 27, 2008/AGRAHAYANA 6, 1930

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

(योजना, अनुसंधान, मूल्यांकन एवं निगरानी प्रभाग)

संकल्प

नई दिल्ली, 24 नवम्बर, 2008

सं. 4-1/2008 (आर) पीआरईएम.—सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, निम्नलिखित पहलुओं पर विकलांगों के विकास, समाज रक्षा, अन्य पिछड़े वर्गों और अनुसूचित जातियों के विकास के क्षेत्रों में मंत्रालय को परामर्श देने के लिए अनुसंधान सलाहकार समिति का गठन करता है :-

- (क) विकलांगों के विकास, समाज रक्षा, अन्य पिछड़े वर्ग और अनुसूचित जातियों के विकास के क्षेत्र में अनुसंधान कार्य को बढ़ावा देना, समन्वय करना और उपयोग करना ।
- (ख) अनुसंधान क्षेत्रों का पता लगाना ।
- (ग) अनुसंधान संस्थानों/संगठनों से प्राप्त विभिन्न अनुसंधान प्रस्तावों/परियोजनाओं की जांच करना और उन्हें अनुमोदित करना ।
- (घ) उपर्युक्त क्षेत्रों में अनुसंधान को बढ़ावा देने से संबंधित अन्य मामले ।

2. समिति के निम्नलिखित सदस्य होंगे :-

(क) सरकारी सदस्य

- | | |
|------------------------------------------------------------|--------------------|
| 1. अपर सचिव (सामाजिक न्याय और अधिकारिता) | —अध्यक्ष (पदेन) |
| 2. अपर सचिव/वित्तीय सलाहकार अथवा उनके द्वारा नामित व्यक्ति | —सदस्य (पदेन) |
| 3. संयुक्त सचिव (एसडी) | —सदस्य (पदेन) |
| 4. संयुक्त सचिव (एससीडी) | —सदस्य (पदेन) |
| 5. संयुक्त सचिव (डीडी) | —सदस्य (पदेन) |
| 6. संयुक्त सचिव (बीसी) | —सदस्य (पदेन) |
| 7. आर्थिक सलाहकार | —सदस्य (पदेन) |
| 8. सलाहकार (एसडी एण्ड डब्ल्यू पी) योजना आयोग | —सदस्य (पदेन) |
| 9. उपमहानिदेशक (पीआरईएम) | —सदस्य सचिव (पदेन) |

(ख) गैर-सरकारी सदस्य

- | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 1. डॉ. आभा चौधरी
संस्थापक सचिव,
अनुग्रह,
बी-33, आर्यानगर अपार्टमेंट्स,
91, आईपी एक्सटेंशन,
दिल्ली-110092 | —सदस्य |
| 2. प्रोफेसर एम एन जी मनी
डीन
विकलांगता, प्रबंधन एवं विशेष शिक्षा संकाय,
रामकृष्णा मिशन विद्यालय,
एजुकेशनल रिसर्च इंस्टिट्यूट,
कोयम्बटूर, तमिलनाडु | —सदस्य |
| 3. डॉ. बी. एल. कानू
सचिव/अध्यक्ष,
एसोसिएशन ऑफ नेशनल ब्रदरहुड फार सोशल वेलफेयर,
22, न्यू रोहतक रोड (बेक लेन),
करोल बाग, दिल्ली-110005 | —सदस्य |
| 4. श्री बड़े लाल मण्डेलिया
निर्भय भवन पड़ाव,
ग्वालियर-2, मध्य प्रदेश | —सदस्य |
| 5. डॉ. भागीरथ प्रसाद
उप कुलपति
देवी अहिल्या विश्वविद्यालय,
इन्दौर, मध्य प्रदेश | —सदस्य |

3. समिति के सदस्यों का कार्यकाल 2 वर्ष अर्थात् 24 नवम्बर, 2008 से 23 नवम्बर, 2010 तक होगा। समिति की बैठक अनुसंधान/मूल्यांकन अध्ययनों की प्रगति की समीक्षा के लिए त्रैमासिक आधार पर आयोजित होगी जिसमें अध्ययन के दौरान संशोधनों के लिए अनुमति दी जाएगी और सुनिश्चित किया जाएगा कि इसके परिणाम समिति द्वारा दी गई संदर्भ शर्तों के अनुरूप हों।

4. समिति की सदस्यता के लिए कोई वेतन नहीं दिया जाएगा। गैर-सरकारी सदस्यों को समिति की बैठकों में भाग लेने के लिए यात्राओं हेतु भारत सरकार के समूह 'क' अधिकारियों को देय यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता के पात्र होंगे। सरकारी सदस्य अपने-अपने कार्यालयों से उन पर लागू नियमों के अनुसार यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता आदि आहरित करने के पात्र होंगे।

आशीष कुमार, उप महानिदेशक

MINISTRY OF SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT

(Planning, Research, Evaluation and Monitoring Division)

RESOLUTION

New Delhi, the 24th November, 2008

F. No. 4-1/2008 (R) PREM.—The Ministry of Social Justice and Empowerment hereby constitutes the Research Advisory Committee in the areas of disabled development, social defence, other backward classes and scheduled castes development to advise the Ministry on the following aspects :

- Promotion/coordination and utilisation of research work in the field of disabled development, social defence, other backward classes and scheduled castes development;
- Identification of area of research in said fields;
- Screening and approval of various research proposals/projects received from research institutions/organisations; and
- Other matters relating to promotion of research in the said fields.

2. The Committee will have the following Members :

A. OFFICIAL MEMBERS

- | | |
|------------------------------------------|--------------------------------|
| 1. Addl. Secretary (SJ & E) | —Chairperson (ex-officio) |
| 2. Addl. Secretary/FA or his nominee | —Member (ex-officio) |
| 3. Joint Secretary (SD) | —Member (ex-officio) |
| 4. Joint Secretary (SCD) | —Member (ex-officio) |
| 5. Joint Secretary (DD) | —Member (ex-officio) |
| 6. Joint Secretary (BC) | —Member (ex-officio) |
| 7. Economic Adviser | —Member (ex-officio) |
| 8. Adviser (SD & WP) Planning Commission | —Member (ex-officio) |
| 9. Deputy Director General (PREM) | —Member Secretary (ex-officio) |

B. NON-OFFICIAL MEMBERS

- | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 1. Dr. Aabha Chaudhary
Founder Secretary,
Anugraha,
B-33, Aryanagar Appts.,
91, IP Extension, Delhi-110092 | —Member |
| 2. Prof. MNG Mani
Dean
Faculty of Disability, Management and
Special Education,
Ramakrishna Mission Vidyalaya Educational
Research Institute,
Coimbatore, Tamil Nadu | —Member |
| 3. Dr. B. L. Kantroo
President/Chairman
Association of National Brotherhood for
Social Welfare,
22, New Rohtak Road (Back Lane),
Karol Bagh, New Delhi-110 005 | —Member |
| 4. Shri Bare Lal Mandeliya
Nirbhay Bhawan Padoo,
Gwalior-2, Madhya Pradesh | —Member |
| 5. Dr. Bhagirath Prasad
Vice-Chancellor,
Devi Ahilya University,
Indore, Madhya Pradesh | —Member |

3. The tenure of the Members of the Committee will be two years i.e. from 24th November, 2008 to 23rd November, 2010. The Committee will meet on a quarterly basis to take a review of the progress of Research/Evaluation Studies which will allow for mid-course corrections and ensure that the end product is in conformity with the terms of reference assigned by the Committee.

4. No remuneration will be paid for membership of the Committee. The non-official members of the Committee will be entitled to TA/DA for their journeys to attend the meetings as admissible to officers of Group 'A' of the Government of India. The official members will be entitled to draw TA/DA etc. as per rules applicable to them from the respective offices.

ASHISH KUMAR, Dy. Director General